



KEI Industries Limited

Registered and Corporate Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1992PLC051527
Tel.: +91-11-26818840/8642/0242, Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2025-26

Date: 24.01.2026

The Manager,
Listing Operation,
BSE Limited,
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

Sub: Intimation of Publication of Advertisement regarding voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited.

Dear Sir / Madam,

Further to our letter dated 21st January, 2026, we enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copies of the newspaper clippings of the advertisement published on 24th January, 2026 regarding Notice issued pursuant to Regulations 5 and 6 of the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 pertaining to voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited, in the following newspapers:

- Business Standards all editions (English),
- Business Standards all editions (Hindi), and
- Arthik Lipi (Bengali).

This is for the information of the exchange and the members.

Thanking You

Yours truly,

For KEI INDUSTRIES LIMITED


(KISHORE KUNAL)

Sr. VP (CORPORATE FINANCE) & COMPANY SECRETARY

CC:

The National Stock Exchange of India Ltd. Listing Division, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	The Calcutta Stock Exchange Ltd. The Senior Manager, Listing Division, 7, Lyons Range, Kolkata- 700001
--	---





VEEFIN SOLUTIONS LIMITED

CIN: L72900MH2020PLC347893

Regd. Office: Global One, 2nd Floor, Office 1 CTS No, 252 & 252/1, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai 400070. Email id: investors@veefin.com

UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025


In Compliance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations"), the Board of the Directors of Veefin Solutions Limited at their meeting held on January 23, 2026 approved the Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025. The Financial Results along with Limited review report issued by ADV & Associates, Statutory Auditors of the Company are available on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited www.bseindia.com and also on the website of the Company www.veefin.com. In Compliance with Regulation 47, of the SEBI Listing Regulations we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the below Quick Response (QR) Code.



For Veefin Solutions Limited

Sd/-
Urja Thakkar
Company Secretary
Membership No.: A42925

Place: Mumbai
Date: 23rd January, 2026



Cipla Limited

CIN: L24239MH1935PLC002380


Regd. Office: Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Tel. No.: (022) 4191 6000 • Fax No.: (022) 4191 6120 • E-mail: cosecretary@cipla.com • Website: www.cipla.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of the Cipla Limited ("Company") at its meeting held on Friday, 23rd January, 2026 approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) for the quarter and nine months ended 31st December, 2025 ("results").

The results, along with the limited review reports (standalone and consolidated) by M/s. Walker Chandiok & Co LLP, Statutory Auditors of the Company are available on the website of the Company at www.cipla.com/investors/quarterly-results, and on websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

In compliance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick response (QR) code:



For CIPLA LIMITED

Sd/-
Rajendra Chopra
Company Secretary
ACS 12011

Date: 23rd January, 2026
Place: Mumbai



KEI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: D-90, DDA Industrial Area, Phase I, New Delhi-110 020
Phone: 91-11-26518840/26816642, Web: www.kei-ind.com
E-mail id: cs@kei-ind.com
(CIN: L74899DL1992PLC051527)

PUBLIC NOTICE


Notice is hereby given that pursuant to Regulation 5 and 6 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations"), the Board of Directors of the Company at its meeting held on 21st January, 2026 have inter alia, approved a proposal for voluntary delisting of Equity Shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE"). The said proposal was necessitated since CSE does not have any active platform for trading in equity shares. The Company is in process of making necessary application to CSE for this purpose.

The above will have no adverse effect on the investors, since the shares will continue to remain listed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) having nationwide trading terminals.

For KEI Industries Limited

Sd/-
Kishore Kunal
Sr. VP (Corporate Finance)
and Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 23.01.2026



The India Cements Limited

(A subsidiary of UltraTech Cement Limited)


Registered Office: "Dhun Building", 827, Anna Salai, Chennai 600 002.
Corporate Office: "Coromandel Towers", 93, Santhome High Road, Chennai 600 028.
Website: www.indiacements.co.in Email ID: investor@indiacements.co.in CIN: L26942TN1946PLC000931

ADITYA BIRLA
UltraTech

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2025 (Rs. in Crores)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended 31.12.2025	Nine Months Ended 31.12.2025	Quarter Ended 31.12.2024	Year Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.12.2025	Nine Months Ended 31.12.2025	Quarter Ended 31.12.2024	Year Ended 31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1139.88	3303.86	912.81	4122.31	1137.96	3317.85	952.11	4340.87
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.07	(27.48)	(306.80)	(848.50)	3.93	6.01	(306.45)	(679.15)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7.65)	(35.20)	(497.06)	(794.37)	(4.54)	(132.24)	93.80	(171.35)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.72)	(26.34)	(409.38)	(667.56)	(2.67)	(125.21)	116.52	(132.18)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(9.65)	(28.13)	4501.98	4224.25	(9.52)	(130.63)	5033.01	4748.61
6	Equity Share Capital	309.90	309.90	309.90	309.90	309.90	309.90	309.90	309.90
7	Other Equity (Reserves)				9313.36				9884.23
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic (in Rs.): 2. Diluted (in Rs.):	(0.18) (0.18)	(0.85) (0.85)	(13.21) (13.21)	(21.54) (21.54)	(0.09) (0.09)	(4.09) (4.09)	3.95 3.95	(4.64) (4.64)

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months ended Financial Results along with other disclosures under Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website (www.indiacements.co.in).



Place : Chennai
Date : 23.01.2026

for THE INDIA CEMENTS LIMITED
K C JHANWAR
DIRECTOR



NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION, NAGPUR

EOI Notice

INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST FOR CARRYING OF FOLLWING WORK

Commissioner NMC invites EOI for the following works. The details of EOI can be downloaded by the Agencies / Entrepreneurs / Contractors/ Suppliers from the Govt. of Maharashtra's portal www.mahatenders.gov.in

Name of work
"Appointment of Consultant for Preparation of Detailed Project Report (DPR) for the complete catchment of Pohra River to Somalwada Nallah Nagpur Airport and Adjoining Area including Condition Assessment of Existing pipeline 1500/1200/600 mm diameter by robotic camera, Nallah Design, Canalization, Storm Water Drainage, Culverts and Bridges for complete area. (National Highway, Airport, Railway, NMC & NIT)".


Note:- 1) Cost of RFP Document **Rs. 11800/-** & **EMD: 100000/-**
2) RFP Docuement Download & submission start date: **27/01/2026**.
3)Submission of Online bid Due Date and time (Submission of technical & financial proposal): **03/02/2026 up to 4.00 pm**. 4) Date and time for opening of technical proposal: **04/02/2026 up to 4.00 pm**. 5) Eligibility criteria and mode of Submission shall be as stated in uploaded RFP document.
Advt No. 944 PR
Date 23.01.2026

Executive Engineer (Zone No.01)
Nagpur Municipal Corporation


When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email order@bsmail.in




Business Standard
Insight Out



IndusInd Bank

Q3 FY26 FINANCIAL HIGHLIGHTS



Scan here to view

Consolidated Q3 FY26 Performance

Net Profit at ₹128 crores

Net Interest Income at ₹4,562 crores

CRAR at 16.94%

Average LCR at 122%

PCR at 71.50%

GNPA at 3.56%

NNPA at 1.04%

Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 (₹ in Lakhs)

Particulars	Consolidated			Standalone		
	Quarter ended 31.12.2025 (unaudited)	Nine months ended 31.12.2025 (unaudited)	Quarter ended 31.12.2024 (unaudited)	Quarter ended 31.12.2025 (unaudited)	Nine months ended 31.12.2025 (unaudited)	Quarter ended 31.12.2024 (unaudited)
Total income from operations	1308008	4076079	1515580	1307939	4075610	1515101
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	17385	39733	185702	21816	53816	185528
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	17385	39733	185702	21816	53816	185528
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	12798	29517	140233	16116	40062	140128
Equity Share Capital	77908	77908	77905	77908	77908	77905
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	6376692 (As at 31.03.2025)	6376692 (As at 31.03.2025)	6213356 (As at 31.03.2024)	6342381 (As at 31.03.2025)	6342381 (As at 31.03.2025)	6172310 (As at 31.03.2024)
Earnings Per Share (of ₹10 each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)						
Basic	1.64	3.79	18.01	2.07	5.14	17.99
Diluted	1.59	3.67	18.00	2.00	4.98	17.99
Net Worth	6207708	6207708	6510165	6194631	6194631	6473282
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-
Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-
Debt Equity Ratio	0.45	0.45	0.37	0.45	0.45	0.37
Total Debt to Total Assets	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Bank website www.indusind.bank.in.
2. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income are not furnished as Ind AS is not yet made applicable to banks.

Mumbai
January 23, 2026

Rajiv Anand
Managing Director & CEO

CIN: L65191PN1994PLC076333 | **Regd. Office:** 2401, Gen. Thimmayya Road, Cantonment, Pune - 411 001. | **Corporate Office:** 8th Floor, Tower 1, One World Centre, 841, S. B. Marg, Prabhadevi (W), Mumbai - 400 013.

संक्षेप में

इंडिया यामाहा ने 3 लाख

स्कूटर वापस मंगाए

इंडिया यामाहा मोटर ने खराब ब्रेक पार्ट को ठीक करने के लिए अपने 'रे जेडआर 125 एफआई हाइब्रिड' और 'फसीनो 125 एफआई हाइब्रिड' मॉडल के तीन लाख से अधिक स्कूटर वापस मंगाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने बयान में कहा कि कंपनी ने 2 मई, 2024 से 3 सितंबर, 2025 के बीच विनिर्मित अपने 125 सीसी स्कूटर मॉडल की 3,06,635 इकाइयों को वापस मंगाने के लिए तत्काल प्रभाव से स्वेच्छिक अभियान शुरू किया है। कंपनी ने कहा, ‘यह कदम संभावित समस्या के समाधान के लिए उठाया गया है।

भाषा

कर्नाटक में बाइक टैक्सी से प्रतिबंध हटा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सी के संचालन पर लगाया गया प्रतिबंध शुक्रवार को हटा दिया। इससे सेवाओं को बहाल करने का रास्ता साफ हो गया। उबर, रैपिडो और ओला जैसी मोबिलिटी कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला बाइक टैक्सियों को कर्नाटक में यात्री परिवहन के कानूनी रूप में मान्यता प्रदान करता है। राइड हेलिंग कंपनी उबर ने कहा कि बाइक टैक्सियां भारतीय शहरों के लिए मोबिलिटी की महत्वपूर्ण जीवनरेखा के रूप में काम करती हैं और जो लोगों को ट्रैफिक में आने-जाने का किफायती तथा सुविधाजनक तरीका प्रदान करती हैं।

बीएस

मुकेश बंसल ने पीयूष रंजन संग पेश की ‘फर्मी’

अनुभवी उद्यमी तथा मित्रा और कल्ट.फिट जैसी स्टार्टअप के सह-संस्थापक मुकेश बंसल ने गुगल के पूर्व अधिकारी पीयूष रंजन के साथ मिलकर अपने एड-टेक वेंचर ‘फर्मी’ की पेशकश के साथ एडटेक क्षेत्र में प्रवेश करने की घोषणा की। यह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) -फर्स्ट प्लेटफॉर्म हाई-स्कूल एस्पटीइंप (साइंस, टेक्नॉलजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स) शिक्षा पर केंद्रित है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे विषय पढ़ाता है।

बीएस

एसी उपकरण : पीएलआई योजना के तहत पांच कंपनियों को चुना गया

एयर कंडीशनर उपकरणों के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत पांच लाभार्थी कंपनियों को चुना गया है। इनमें कौलिस्कर न्यूमैटिक, इंडो एशिया कॉपर और गोदरेज एंड बॉयस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी शामिल हैं।

आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। इसके तहत कुल 863 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

सीनियर हाउसिंग परियोजना शुरू करेगी डीएलएफ

रियल्टी दिग्गज डीएलएफ ने शुक्रवार को कहा कि वह गुरुग्राम में अपनी सीनियर लिविंग परियोजना जल्द शुरू करेगी। इस परियोजना से करीब 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल होने का अनुमान है।

कंपनी वित्त वर्ष 2027 में गुरुग्राम में एक समूह आवासीय परियोजना के साथ-साथ वेस्टपाक मुंबई, पंचकुला और गोवा में भी कई परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है।

विस्तार की योजना ऐसे समय में बनाई जा रही है जब डीएलएफ ने इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान बिजली बुकिंग में भारी गिरावट दर्ज की है। दिसंबर तिमाही में उसकी बिज्री बुकिंग पिछले वर्ष

की समान अवधि के 12,039 करोड़ रुपये से घटकर 419 करोड़ रुपये रह गई। इस गिरावट के कारणों पर टिप्पणी करते हुए डीएलएफ के प्रबंध निदेशक अशोक त्यागी ने कहा कि कंपनी ने पिछली तिमाही में गुरुग्राम में अपनी अल्ट्रा-लज्जरी आवासीय परियोजना ‘द डहलियास’ में बिज्री बुकिंग को रोक दी थी और कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन में बदलाव करने के लिए किया गया था और इसके लिए उन उपभोक्ताओं से मंजूरी की आवश्यकता थी जिन्होंने परियोजना में जगह खरीदी है।

बीएस

पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की नजर यूरोप पर

अभीक दास
बेंगलूरु, 23 जनवरी

आईटी सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पर्सिस्टेंट सिस्टम्स यूरोप में अपनी मौजूदगी का विस्तार और मुख्य भौगोलिक बाजार के रूप में अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने पर विचार कर रही है कंपनी

■ मुख्य भौगोलिक बाजार के रूप में अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने पर विचार कर रही है कंपनी

■ यूरोप में राजस्व बढ़ाने पर भी दिया जा रहा ध्यान

जो हो रहा है, उसे देखते हुए और वैसे भी हम यूरोप में राजस्व में कुछ और विविधता चाहेंगे। लक्ष्य दीर्घाव धि के आधार पर 12 से 15 प्रतिशत के दायरे में होना है।’

इसके लिए कंपनी को अपनी अधिग्रहण रणनीति में बदलाव करना होगा, जो मुख्य रूप से क्षमता बढ़ाने के लिए छोटे-मोटे अधिग्रहण रही है। उन्होंने कहा, ‘अगर हम यूरोप जाते हैं, तो हम बड़े स्तर का अधिग्रहण करेंगे, जो हमें ग्राहकों की क्षमता तक पहुंच प्रदान करेगा। हमें ग्राहकों तक पहुंच की आवश्यकता है क्योंकि यूरोप में हमारे पास यही कमी है। इस लिहाज से अमेरिका में हमारे पास बताया, ‘हम यूरोप में अपना राजस्व बढ़ाना चाहते हैं। बाजार में

जेएसडब्ल्यू स्टील के मुनाफे में हुआ 198 प्रतिशत का इजाफा



लागत से इजाफा हुआ, जिसे कुछ हद तक कम आमदनी ने संतुलित कर दिया।

जेएसडब्ल्यू स्टील ने कहा कि निदेशक मंडल ने ओडिशा के जगतसिंहपुर में अपने नए कार्य स्थल पर सालाना 50 लाख टन वाले स्टील संयंत्र को मंजूरी दे दी है। इसकी सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील लिमिटेड के तहत इस परियोजना में 31,600 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया जाएगा और इसे वित्त वर्ष 30 तक चालू कर दिया जाएगा।

नियामकीय सूचना में जेएसडब्ल्यू स्टील ने कहा कि निदेशक मंडल ने एक संयुक्त उद्यम वाली कंपनी बनाने को भी मंजूरी दी है। इसमें कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेदार रियल्टी लिमिटेड भूमि विकास परियोजना के लिए जेएसडब्ल्यू रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू मुख्य रूप से अधिक वॉल्यूम तथा कोकिंग कोल और बिजली की कम

कॉम्प्लेक्स रेस्पिरैटरी दवाओं, पेटाइड्स और इंजेक्टेबल्स की मदद से।

सिप्ला के एमडी और ग्लोबल सीईओ (नामित) अचिन गुप्ता ने कहा, ‘हमें तिमाही के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे प्रमुख उत्पादों में से एक लैनरियोटाइड हमारे भागीदार फार्मेशन के यूएस एफडीए ऑडिट के बाद आपूर्ति की किल्लत से प्रभावित हुआ। हम समस्याएं दूर करने पर काम कर रहे हैं और वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में आपूर्ति फिर शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच, मौजूदा लॉट की निकासी के आधार पर उत्पाद की सीमित आपूर्ति होगी। हम अपने भागीदार के साथ एक वैकल्पिक निर्माण इकाई को सक्षम बनाने पर भी विचार कर रहे हैं।’

अदाणी ग्रीन एनर्जी का लाभ 99% घटा

अदाणी ग्रीन एनर्जी का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में लगभग 98.94 प्रतिशत घटकर पांच करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से खर्च बढ़ने के कारण कंपनी का लाभ घटा है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि पिछले वर्ष की समान तिमाही (दिसंबर 2024) में उसने 474 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया था। आलोच्य तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 2,961 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,329 करोड़ रुपये था। वित्तीय लागत भी पिछले साल के 1,251 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,698 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि, तिमाही के दौरान कुल आय बढ़कर 2,837 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल 2,636 करोड़ रुपये थी।

इंडिया सीमेंट्स को 2.67 करोड़ रुपये का घाटा

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (आईसीएल) को 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही में 2.67 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ। मुख्य रूप से असाधारण मंदों के कारण कंपनी को यह घाटा हुआ है।

शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, अल्ट्राटेक सीमेंट की सहायक कंपनी आईसीएल ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 116.52 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जिसे संपत्तियों की बिज्री से मदद मिली थी। इसी तिमाही के दौरान कंपनी का लाभ असाधारण मंदों और कर से पहले 3.93 करोड़ रुपये था।

भाषा

कोफोर्ज के सीईओ ने जताई उम्मीद

‘पीई निवेशक खोलेंगे वृद्धि के नए मार्ग’

शिवानी शिंदे

मुंबई, 23 जनवरी

प्राइवेट इक्विटी (पीई) कंपनी एडवेंट इंटरनैशनल से कोफोर्ज के लिए वृद्धि के नए मार्ग खुलने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि वह एनकोरा सीदे के तहत कोफोर्ज में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के नियोजित अधिग्रहण के बाद बोर्ड (निदेशक मंडल) में शामिल हो रही है। कोफोर्ज के मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) सुधीर सिंह ने यह जानकारी दी है।

सिंह ने कहा, ‘अभी तक हमारे बोर्ड में कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म कभी नहीं रही। अप्रैल के आसपास यह सौदा पूरा होने के बाद एडवेंट बोर्ड में शामिल हो जाएगी। उनके पास फर्मों की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। हम एडवेंट पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ काम करने की योजना बना रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि क्या हम उनका इस्तेमाल वृद्धि तेज करने वाले मार्ग के रूप में कर सकते हैं।’ वह वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के कंपनी के नतीजों के

ऐलान के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। सिंह ने यह भी कहा कि कंपनी एनकोरा के लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज खत्म करने के लिए क्यूआईपी की राह का विकल्प नहीं चुनेगी, क्योंकि कंपनी बैंकों के कंसोर्टियम से आकर्षक ब्याज दरों पर कर्ज जुटाने में कामयाब रही है। सिंह ने कहा, ‘हमने पांच बैंकों के कंसोर्टियम से एक अंक की मध्य



सुधीर सिंह, सीईओ

स्तरीय ब्याज दर पर वित्तीय सहायता हासिल कर ली है।’

दिसंबर 2025 में कोफोर्ज ने अमेरिका की एआई मूल वाली इंजीनियरिंग कंपनी एनकोरा का 2.35 अरब डॉलर में पूरी तरह से नकद सौदे में अधिग्रहण का ऐलान किया था। कंपनी अनुमान जता रही है

कि इस एकीकरण की लागत एक करोड़ डॉलर से डेढ़ करोड़ डॉलर के बीच रहेगी। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान 250.2 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया,

जो 17.6 प्रतिशत अधिक रहा। तिमाही आधार पर कंपनी का लाभ 33.4 प्रतिशत लुढ़क गया। नई श्रम संहिता (117.9 करोड़ रुपये), अधिग्रहण से जुड़े कानूनी खर्च और साइबर सुरक्षा के मसलों की वजह से 16.2 करोड़ रुपये के व्यय के कारण लाभ में यह गिरावट आई। राजस्व सालाना आधार पर 28.5 प्रतिशत बढ़कर 4,188.1 करोड़ रुपये हो गया।

एंटीट्रस्ट जांच में टाटा, जेएसडब्ल्यू का इस्पात गुट से संपर्क मिला

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 23 जनवरी

एक एंटीट्रस्ट जांच रिपोर्ट से पता चला है कि चार प्रमुख भारतीय इस्पात निर्माताओं- टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सरकारी सेल तथा आरआईएनएल- ने प्रतिस्पर्धियों को अपनी मूल्य निर्धारण योजनाओं का खुलासा किया और आपूर्ति घटाने के लिए मिलीभगत करके उत्पादन में कटौती की। रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट देखी है।

भारत के इस्पात क्षेत्र से जुड़े सबसे हाई-प्रोफाइल एंटीट्रस्ट मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा अधीनशीलता को जांच में पाया गया कि 28 कंपनियों ने इस्पात की कीमतों पर मिलीभगत

की। इस जांच का मतलब है कि उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। रॉयटर्स ने 6 जनवरी को इस बारे में खबर दी थी।

चार बड़ी कंपनियों के बारे में जांच रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि आयोग ने दर्जनों क्वाट्सएफ चैट को देखा, जिनमें ‘फ्रेड्स ऑफ स्टील’, ‘टायकून्स’ और ‘स्टील लाइव मार्केट’ जैसे ग्रुप शामिल थे। इन्हें 2022 में उद्योग पर हुई रेंड के दौरान जब्त किया गया था। आयोग ने कीमतों में बदलाव, बिज्री और उत्पादन पैटर्न का विश्लेषण किया। रिपोर्ट के अनुसार, टाटा स्टील, जेएस डब्ल्यू, सेल और आरआईएनएल ने 2018-2023

के दौरान मिलीभगत की। अप्रैल 2025 में तैयार की गई आयोग की रिपोर्ट में कहा गया, ‘सेल, आरआईएनएल, जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील द्वारा मिलकर किए गए प्रयासों के पर्याप्त सबूत हैं।’ रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चारों कंपनियां ‘संवेदनशील जानकारी पहले से देकर बाजार को प्रभावित कर रही थीं।’ कंसल्टेंसी बिगमिंट का अनुमान है कि इन कंपनियों की भारत के इस्पात बाजार में 44.4 फीसदी भागीदारी है। टाटा स्टील ने किसी भी गलत काम से स्पष्ट तौर पर इनकार किया है। सेल, आरआईएनएल, जेएसडब्ल्यू ने इस संबंध में रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई और ईडी को निर्देश

‘आरकॉम और समूह से संबंधित जांच पर यथास्थिति रिपोर्ट जमा कराएं’

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 23 जनवरी

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा है कि वे रिलायंस कम्प्यूनिकेशंस, उसकी समूह कंपनियों और उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी बड़ी बैंक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को जानकारी मुहैया कराएं। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की अध्यक्षता वाले पीठ ने पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस सरमा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सरमा ने जांच की न्यायिक निगरानी की मांग की है। उनकी ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले में कथित वित्तीय अनियमितताएं पहले के कार्रपरेट धोखाधड़ी मामलों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और जटिल हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भारी भरकम ऋण माफ किए जाने के बावजूद जांच एजेंसियों ने धीमी और अधूरी कार्रवाई की है। भूषण ने बताया, हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2020 में ही ऑडिट के माध्यम से अनियमितताओं का पता लगा लिया था, लेकिन आपराधिक मामला जून 2025 में दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि एफआईआर में किसी भी सरकारी कर्मचारी का नाम नहीं है और कथित कदाचार के पूरे दायरे को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपराधिक मामला पहले से ही दर्ज है और सीबीआई मामले की जांच कर रही है। लेकिन भूषण ने कहा कि जांच में गहराई की कमी है। उन्होंने औपचारिक यथास्थिति रिपोर्ट में माध्यम से सीबीआई और ईडी दोनों की जवाबदेही के लिए जोर डाला। अनुरोध स्वीकार करते हुए



अदालत ने दोनों एजेंसियों को अपनी जांच की प्रगति का विवरण देते हुए रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर जांच अभी भी जारी है तो प्रारंभिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा की जा सकती हैं, जिस पर 10 दिन बाद विचार किया जाएगा। पीठ ने अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों को मामले में पेश होने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया और उन्हें नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

याचिका के अनुसार रिलायंस कम्प्यूनिकेशंस और उसकी सहायक कंपनियों, रिलायंस इन्फ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुआई वाले बैंकिंग कंसोर्टियम से 2013

से 2017 के बीच लगभग 31,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। एसबीआई द्वारा कराई गई फॉरेंसिक ऑडिट में बड़े पैमाने पर धन के इतर इस्तेमाल का खुलासा हुआ है, जिसमें अर्सबंधित देनदारियों का भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण, म्युचुअल फंडों में निवेश, तुरंत भुनाए जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट और कुछ चुकाकर नए लोन लेने के लिए कथित जटिल चक्र्रीय लेनदेन शामिल हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कुर्की को चुनौती देने के मामले में अपने अधिकार क्षेत्र पर संदेह जताया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संकेत दिया कि अनिल अंबानी समूह की दो कंपनियों, रिलायंस रियल्टी और कैपियन प्रॉपर्टीज द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी संपत्तियों की कुर्की को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र उसके पास नहीं हो सकता है।

